




आय सृजन गतिविधि
व्यवसाय योजना
कटाई और सिलाई एवं बैग निर्माण 2023



एसएचजी/नाम
वीएफडीएस नाम
एफटीयू/रेंज
डीएमयू/मंडल
एफसीसीयू / सर्कल

: नारदा शारदा स्वयं सहायता समूह
: बैहली
: जय देवी
: सुकेत
: मंडी

द्वारा प्रायोजित
पीआईएचपीफेम और एल

द्वारा तैयार:-
डीएमयू सुकेत, एफटीयू जय देवी और नारदा शारदा स्वयं
सहायता समूह

विषयसूची

विवरण	पेज
परिचय	3
कार्यकारी सारांश	4
स्वयं सहायता समुह का विवरण	4-7
गांव का भौगोलिक विवरण	7
आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	8
उत्पादन योजना का विवरण	8
विपणन /बिक्री का विवरण	8-9
अर्थशास्त्र का विवरण	9-10
वित्त की आवश्यकता	10-11
निगरानी विधि	11
टिपणी	12
व्यवसाय योजना स्वेटर एवं बैग बनाना	12
कार्यकारी सारांश	12
आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण।	12
उत्पादन योजना का विवरण	13
अर्थशास्त्र का विवरण	13-14
फंड की आवश्यकता	15
अनुलग्नक	16-17

परिचय

हिमाचल प्रदेश राजसी, पौराणिक भूभाग है और अपनी सुंदरता और शांति, समृद्ध संस्कृति और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में विविध पारिस्थितिकी तंत्र, नदियाँ और घाटियाँ हैं, और इसकी आबादी 7.5 मिलियन है और यह 55,673 वर्ग किमी में शिवालिक की तलहटी से लेकर मध्य पहाड़ियों (MSL से 300 - 6816 मीटर ऊपर), ऊँची पहाड़ियों और ऊपरी हिमालय के ठंडे शुष्क क्षेत्रों को शामिल करता है। यह घाटियों में फैला हुआ है जिसमें कई बारहमासी नदियाँ बहती हैं। राज्य की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कृषि, बागवानी, जल विद्युत और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं। राज्य में 12 जिले हैं और 14.58% आबादी के हिसाब से मंडी दूसरा जिला है।

यह जिला मध्य हिमाचल में स्थित है और अपने पर्यटन स्थलों और हिमालयी यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है, मंडी जिला से हिमालयी यात्राओं के लिए रास्ते कुल्लू शिमला, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों को जोड़ते हैं ये जिले मंडी जिले के पश्चिम और दक्षिण में क्रमशः उत्तर-उत्तर पूर्व, पूर्व में सीमाबद्ध हैं।

यह जिला प्राचीन बस्तियों, पारंपरिक हथकरघा और सेब की खेती के किये प्रसिद्ध है जिसकी व्यास और सतलुज नदी नदी मुख्य जीवन रेखा हैं।

बल्ह घाटी जिले की सबसे बड़ी घाटी है, हालांकि अन्य घाटियों जैसे करसोग और हटली घाटियों को भी खाद्यान्न उत्पादन के लिए जाना जाता है। जिसे देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मंडी शहर व्यास नदी के तट पर स्थित है, जो बल्ह घाटी के उत्तरी भाग में है, बल्ह घाटी के लोग को कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं।

वन और वन पारिस्थितिकी तंत्र समृद्ध जैव विविधता के भंडार हैं, और नाजुक ढलान वाली भूमि को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका के प्राथमिक स्रोत थे। ग्रामीण लोग अपनी आजीविका और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वन संसाधनों पर सीधे निर्भर हैं। कठोर वास्तविकता यह है कि चारा, ईंधन, एनटीएफपी निकासी, चराई, आग और सूखा आदि जैसे अत्यधिक दोहन के कारण ये संसाधन लगातार कम हो रहे हैं।

बैहली वन ग्रामीण विकास समिति के तहत आजीविका सुधार गतिविधियों को लागू करने के लिए दो स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनमें से एक है, " नारदा शारदा " स्वयं सहायता समूह, कटाई, सिलाई और बैग निर्माण से संबंधित है। समूह के सदस्य समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित हैं और उनके पास कम भूमि जोत है। अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, उन्होंने कटाई, सिलाई और बैग निर्माण करने का फैसला किया। व्यवसाय योजना तैयार करने के लिए तकनीकी सहयोग डॉ पंकज सूद, प्रमुख वैज्ञानिक, डॉ कविता शर्मा और डीएस यादव, कृषि विज्ञान केन्द्र मंडी स्थित सुंदर नगर द्वारा प्रदान किए गए थे। दल जिसमें विजय कुमार, विषय विशेषज्ञ, कार्यालय वनमंडल सुकेत, चमन सिंह वन परिक्षेत्र अधिकारी जय देवी, विनिता कुमारी फील्ड टेक्निकल यूनिट कोऑर्डिनेटर जय देवी परिक्षेत्र, सुभाष चन्द वन रक्षक, कमान्द बीट और सीता राम, वनखंड अधिकारी, वन खंड रोहांडा शामिल रहे जिसमें वेद प्रकाश पठानिया सेवानिवृत्त हि० प्र० व० से ० के निरंतर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में व्यवसाय योजना तैयार करने में योगदान रहा।

कार्यकारी सारांश

बैहली वन ग्रामीण विकास समिति:-

बैहली ग्रामीण वन विकास समिति बैहली राजस्व मुहाल का हिस्सा है और ग्रामीण वन विकास समिति ग्राम पंचायत दुमट- बैहली में गठित है। यह हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के सुंदरनगर ब्लॉक में स्थित है और 31°25'30"N अक्षांश- 76°59'54"E देशांतर के बीच स्थित है। बैहली ग्रामीण वन विकास समिति सुकेत वन मंडल प्रबंधन इकाई (डीएमयू) के जयदेवी वन रेंज के अंतर्गत रोहांडा वन खण्ड के कमान्ड बीट के अंतर्गत आता है।

परिवारों की संख्या	207
बीपीएल परिवार	54=25.10%
कुल जनसंख्या	826
कुल मवेशी	658

स्वयं सहायता समूह का विवरण

अनौपचारिक नारदा शारदा स्वयं सहायता समूह का गठन जनवरी 2022 में बैहली वन ग्रामीण विकास समिति के तहत कौशल और क्षमताओं को उन्नत करके आजीविका सुधार सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। समूह में गरीब और सीमांत किसान शामिल हैं। नारदा शारदा स्वयं सहायता समूह महिला समूह (09 महिलाएं) है जिसमें कम भूमि संसाधन वाले समाज के सीमांत और वित्तीय कमजोर वर्ग शामिल हैं। हालांकि समूह के सभी सदस्य मौसमी सब्जियां आदि उगाते हैं, लेकिन चूंकि इन सदस्यों की भूमि बहुत छोटी है और सिंचाई की सुविधा कम है और उत्पादन का स्तर संतृप्ति के करीब पहुंच गया है, इसलिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। कटाई, सिलाई और बैग निर्माण जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। इस समूह में 09 सदस्य हैं और उनका मासिक योगदान 50/- रुपये प्रति माह है। समूह के सदस्यों का विवरण इस प्रकार है:-

फोटो के साथ एसएचजी सदस्यों का विवरण

क्र स	नाम	पद	वर्ग	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	मोबाइल नंबर
1.	सरला देवी	प्रधान	सामान्य	37	10th	98172 93418
2.	मीना देवी	सचिव	SC	37	+2	78766 21374
3.	शालु	कोषाध्यक्ष	SC	24	+2	85866 57493
4.	कली देवी	सदस्य	SC	25	B.A.	78763 37395
5.	शाकुनी देवी	५	SC	28	10th	82788 19231
6.	पार्वती देवी	५	SC	44	अनपढ़	82307 74368
7.	उमरती	॥	सामान्य	29	BA	62302 29514
8.	शान्ता देवी	५	SC	39	7th	78768 36637
9.	सत्या देवी	५	SC	26	10th	62306 90520
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

नारदा शारदा स्वयं सहायता समूह बैहली

एसएचजी का नाम	::	नारदा शारदा
एसएचजी/सीआईजी एमआईएस कोड संख्या	::	-
वीएफडीएस	::	बैहली
परिक्षेत्र	::	जय देवी
वन मण्डल	::	सुकेत
गांव	::	बैहली
खंड	::	सुंदर नगर
ज़िला	::	मंडी
एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	08
गठन की तिथि	::	जनवरी 2022
बैंक का नाम और विवरण	::	HP Gramnin Bank Rohanda
बैंक खाता संख्या	::	87311300000839
एसएचजी/मासिक बचत	::	₹.450/-माह
कुल बचत	::	8550/-
कुल अंतर-ऋण	::	हां
नकद ऋण सीमा	::	-
चुकौती स्थिति	::	तिमाही आधार

गांव का भौगोलिक विवरण

जिला मुख्यालय से दूर	:	75 किमी
मेन रोड से दूर	:	12 किमी (लेकिन मुख्य सड़क से 100 से 200 मीटर तक) लगभग
स्थानीय बाजार और दूर का नाम	:	चौकी , 12 किलोमीटर , रोहांडा 15 किलोमीटर सुंदर नगर 50 किमी लगभग ।
प्रमुख शहरों के नाम और दूर	:	चौकी 12 किलोमीटर , रोहांडा 15 किलोमीटर सुंदर नगर 50 किमी लगभग । लगभग ।
प्रमुख शहरों के नाम जहां उत्पादों को बेचा/विपणित किया जाएगा	:	रोहांडा, सुंदर नगर
बैंकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की स्थिति	:	पिछली कड़ी प्रशिक्षण, (कृषि विज्ञान केन्द्र) और अग्रिम कड़ी बाजार आपूर्तिकर्ताओं में निहित है आदि।

आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

उत्पाद का नाम	::	सिले सूट
उत्पाद पहचान की विधि	::	हालांकि समूह का पूरा सदस्य मौसमी सब्जी और पारंपरिक फसलें उगाता है। चूंकि उनकी भूमि जोत छोटी है, उत्पादन के संतुष्टि बिंदु तक पहुंच गई है, इसलिए वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए समूह के सदस्य द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कटाई, सिलाई और बैग निर्माण से उनकी आय में वृद्धि होगी।
एसएचजी/सीआईजी/ की सहमति समूह	::	सहमति अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

उत्पादन योजना का विवरण

समय लगता है	::	1 सूट को पूरा होने में लगभग 3-4 घंटे लगते हैं
शामिल महिलाओं की संख्या	::	सभी महिलाएं।
कच्चे माल का स्रोत	::	स्थानीय बाजार / मुख्य बाजार/ स्थानीय लोग
अन्य संसाधनों का स्रोत	::	स्थानीय बाजार / मुख्य बाजार
प्रति दिन अपेक्षित सिले सूट	::	शुरुआत में 5 सूट

विपणन /बिक्री का विवरण

संभावित बाजार स्थान / स्थान	::	अन्तर्निहित गांव – बैहली
	::	आस-पास के संस्थान - स्कूल, कॉलेज आदि
सिलाई कार्य की मांग	::	पूरे साल और उत्सव और शादी के अवसरों के समय उच्च मांग।
बाजार के पहचान की प्रक्रिया	::	समूह के सदस्य आस-पास के ग्रामीणों/घरों/संस्थाओं से संपर्क करेंगे।
विपणन रणनीति		एसएचजी सदस्य सीधे आस-पास के ग्रामीणों/घरों/संस्थाओं से आदेश (व्यक्तिगत स्तर/समूह स्तर) लेंगे।

संकट विश्लेषण

- कौशल आधारित
- जरूरत अनुसार
- अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार

सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

आपसी सहमति से एसएचजी समूह के सदस्य कार्य को अंजाम देने के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी तय करेंगे। सदस्यों के बीच उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार काम का बंटवारा किया जाएगा।

- समूह के कुछ सदस्य पूर्व-उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होंगे (अर्थात कच्चे माल की खरीद आदि)
- कुछ समूह सदस्य उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- समूह के कुछ सदस्य पैकेजिंग और मार्केटिंग में शामिल होंगे।

अर्थशास्त्र का विवरण:

पूंजी लागत			
विवरण	मात्रा	यूनिट मूल्य	कुल राशि (₹.)
सिलाई मशीन	09	10000	90000
इंटरलॉक मशीन	1	6000	6000
दर्जी कैंची	09	400	3600
सिलाई रूलर (फीता) सेट	09	600	5400
सिलाई दर्जी Tap	09	100	900
आयरन प्रेस	2	500	1000
अलमारी	3-4	लगभग	5000
हैंगर	2 सेट	400	800
कुर्सियों, मेज आदि	लगभग	लगभग	5000
कुल पूंजीगत लागत (ए) =			117700

बी।	आवर्ती लागत				
अनु क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	कीमत	कुल राशि (₹.)
1	सिलाई के धागे	रीलों/सूट/माह	180	10	1800
2	अन्य परिष्करण सामग्री (बुकरम, कॉलर आदि)	सूट/माह	लगभग	लगभग	4000
3	किराया	महीना			1000
4	अन्य (स्थिर, बिजली बिल, परिवहन, मशीन की मरम्मत)	महीना			1000
कुल आवर्ती लागत (बी)					7800

उत्पादन की लागत (मासिक)	
विवरण	राशि (रु.)
कुल आवर्ती लागत	7800
पूंजीगत लागत पर सालाना 10% मूल्यहास	980
कुल	8780

सिले हुए सूट की कीमत (प्रति सूट)				
विवरण	इकाई	मात्रा	राशि (रु.)	
साधारण सूट	1	1	250-300	
अन्य (प्लाज़ो, अस्तर आदि)	1	1	300-350	

आय और व्यय का विश्लेषण (मासिक):

विवरण	राशि (रु.)
पूंजीगत लागत पर सालाना 10% मूल्यहास	980
कुल आवर्ती लागत	7800
प्रति माह कुल सिले सूट	150 (लगभग मात्रा)
सिले हुए सूट का विक्रय मूल्य (प्रति सूट)	250
आय सृजन (150*250)	37,500
शुद्ध लाभ (37,500 - 8780)	28,720
शुद्ध लाभ का वितरण	लाभ मासिक/वार्षिक आधार पर सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। IGA में आगे निवेश के लिए लाभ का उपयोग किया जाएगा

वित्त की आवश्यकता:

विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान	एसएचजी योगदान
कुल पूंजी लागत	117700	88275	29425
कुल आवर्ती लागत	7800	0	7800
प्रशिक्षण	50000	50000	0
कुल	175500	138275	37225

ध्यान दें-

- पूंजीगत लागत - परियोजना के तहत कवर की जाने वाली पूंजीगत लागत का 75% हिस्सा परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा
- आवर्ती लागत - एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन किया जाना।
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन - परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

वित्त स्रोत:

परियोजना का समर्थन:	<ul style="list-style-type: none">• पूंजीगत लागत का 75% मशीनों की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा।• SHG बैंक खाते में 1 लाख रुपये तक जमा किए जाएंगे।• प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।	सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा मशीनों की खरीद की जाएगी।
स्वयं सहायता समूह योगदान	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> पूंजीगत लागत का 25% एसएचजी द्वारा वहन किया जाएगा।<input type="checkbox"/> स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाने वाली आवर्ती लागत	

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- टीम वर्क
- गुणवत्ता नियंत्रण
- पैकेजिंग और मार्केटिंग
- वित्तीय प्रबंधन

ऋण चुकौती अनुसूची- यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और चुकौती रसीद सीसीएल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूलधन का बैंकों को साल में एक बार पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, चुकौती बैंकों में चुकौती अनुसूची के अनुसार की जानी चाहिए।

निगरानी विधि -

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य के आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

टिपणी:

समूह की आगामी आय को ध्यान में रखते हुए समूह द्वारा दूसरी प्रस्तावित गतिविधि बैग निर्माण है क्योंकि यह निर्णय सिद्धान्तिक रूप में समीक्षा मिशन के समय लिया गया है कि एक व्यवसाय योजना में एक से अधिक गतिविधि सम्मिलित की जानी चाहिए, अतः दूसरी प्रस्तावित गतिविधि नीचे संलग्न है।

व्यवसाय योजना

बैग बनाना

द्वारा

नारदा शारदा स्वयं सहायता समूह

कार्यकारी सारांश

बैग उत्पादन एक तरीका है जिससे लोगों को आर्थिक लाभ होगा व ग्रामीण बैग उत्पादन कम खर्च पर करके अपनी आजीविका में सुधार ला सकते हैं। इसके माध्यम से गरीब परिवार अपनी आय में पर्याप्त बढ़ोतरी कर सकते हैं। कम कीमत पर अच्छी किस्म का उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षण और उन्नत किस्म की मशीनें समूह को अनुदान पर प्रदान की जाएँगी। जिस से समूह के सदस्य अच्छी किस्म के उत्पाद कम समय में तैयार कर सकते हैं और अधिक आय अर्जित कर सकते हैं।

आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण।

उत्पाद का नाम	::	बैग
उत्पाद पहचान की विधि	::	हालांकि समूह का पूरा सदस्य मौसमी सब्जी और पारंपरिक फसलें उगाता है। चूंकि उनकी भूमि जोत छोटी है, उत्पादन के संतुष्टि बिंदु पर पहुंच गई है, इसलिए वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए समूह के सदस्य द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जेआईसीए परियोजना की सहायता से बैग बनाना शुरू किया जाना है, जो उनकी आय में वृद्धि होगी।
एसएचजी/सीआईजी/ की सहमति समूह	::	सहमति अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

उत्पादन योजना का विवरण

समय लिया	::	बैग के प्रकार और आकार के आधार पर 1 बैग को पूरा होने में लगभग 1-2 घंटे लगते हैं
शामिल महिलाओं की संख्या	::	सभी महिलाएं।
कच्चे माल का स्रोत	::	स्थानीय बाजार / मुख्य बाजार
अन्य संसाधनों का स्रोत	::	स्थानीय बाजार / मुख्य बाजार
प्रति दिन अपेक्षित सिले बैग	::	शुरू में 4 बैग

विपणन/बिक्री का विवरण

संभावित बाजार स्थान / स्थान	::	आच्छादित गांव – बैहली आस-पास के संस्थान - स्कूल, कॉलेज आदि
बैग की मांग	::	साल भर (लंच बॉक्स और पानी की बोतलों के लिए बैग और उत्सव, शादी के अवसरों पर यात्रा के लिए कैरी बैग की मांग अधिक होती है
बाजार की पहचान की प्रक्रिया	::	समूह के सदस्य आस-पास के ग्रामीणों/घरों/संस्थाओं से संपर्क करेंगे।
विपणन रणनीति		एसएचजी सदस्य सीधे आस-पास के ग्रामीणों/घरों/संस्थाओं से आदेश (व्यक्तिगत स्तर/समूह स्तर) लेंगे।

जोखिम विश्लेषण

- कौशल आधारित
- जरूरत अनुसार
- अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार

सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

आपसी सहमति से एसएचजी समूह के सदस्य कार्य को अंजाम देने के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी तय करेंगे। सदस्यों के बीच उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार काम का बंटवारा किया जाएगा।

- समूह के कुछ सदस्य प्री-प्रोडक्शन प्रक्रिया (यानी - कच्चे माल की खरीद आदि) में शामिल होंगे।
- कुछ समूह सदस्य उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- समूह के कुछ सदस्य पैकेजिंग और मार्केटिंग में शामिल होंगे।

अर्थशास्त्र का विवरण :

पूंजी लागत			
विवरण	मात्रा	यूनिट मूल्य	कुल राशि (रु.)
सिलार्ड मशीन बैग बनाने वाली	03	17000	51000
कुल पूंजीगत लागत (ए) =			51000

आवर्ती लागत					
क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	कीमत	कुल राशि (रु.)
1	बैग बनाने के लिए कपड़ा (जूट और मोटी कपास)		30 mt	150 / mt.	4500
2	मेटी		30 mt	120	3600
3	सिलाई के धागे	रीलों/बैग/माह	180	10	1800
4	अन्य परिष्करण सामग्री (ज़िप , बटन , फीता, टेप और चेन और अन्य सामान)	बैग/माह	लगभग	लगभग	8000
5	स्पंज		30 mt	3600	3600
6	किराया	महीना			1000
7	अन्य (स्टेशनरी, बिजली बिल, परिवहन, मशीन की मरम्मत)	महीना			1000
कुल आवर्ती लागत					23500
कुल लागत = (पूँजी लागत+ आवर्ती लागत) 51000+23500					74500

सी।	उत्पादन की लागत (मासिक)	
अनु क्रमांक	विवरण	राशि (रु.)
1	कुल आवर्ती लागत	23500
2	पूँजीगत लागत पर सालाना 10% मूल्यह्रास	5100
	कुल	28600

बैग की कीमत (प्रति बैग)				
क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	राशि (रु.)
1	यात्रा का थैला	1	1	300-400
2	लंच बॉक्स के लिए कैरी बैग	1	1	100-150
3	पानी की बोतल के लिए कैरी बैग	1	1	100-150
4	मिनी उपयोगिता किट	1	1	75
5	भट्टा बैग	1	1	250
6	मोबाइल कवर	1	1	75
7	हैंड बैग	1	1	250-300

आय और व्यय का विश्लेषण (महीने के):

क्रमांक	विवरण	राशि (रु.)
1.	कुल आवर्ती लागत	23500
2.	प्रति माह सिले कुल बैग	120 (लगभग मात्रा)
3.	बैग का विक्रय मूल्य (प्रति बैग)	75-400
4.	आय सृजन (120*240)	28800
5.	शुद्ध लाभ (28800 - 23500)	5300

6.	शुद्ध लाभ का वितरण	<ul style="list-style-type: none"> • लाभ मासिक/वार्षिक आधार पर सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। यह लाभ एक घंटा प्रतिदिन काम करने के आधार पर है • IGA में आगे निवेश के लिए लाभ का उपयोग किया जाएगा
----	--------------------	--

फंड की आवश्यकता:

विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान	एसएचजी योगदान
कुल पूंजी लागत	51000	38250	12750
कुल आवर्ती लागत	23500	0	23500
प्रशिक्षण	50000	50000	0
कुल	124000	88250	36250

परियोजना की कुल लागत है

पूंजीगत लागत = 117700/-

आवर्ती लागत = 7800/-

कटाई, सिलाई के लिए कुल =125500/-

बैग बनाना परियोजना की लागत है

पूंजीगत लागत = 51000/-

आवर्ती लागत = 23500/-

बैग बनाना परियोजना के लिए कुल = 74500/-


व्यवसाय योजना का कुल योग रु. केवल 200000/-

क्रम संख्या	व्यवसाय योजना	पूंजीगत लागत	आवर्ती लागत	परियोजना का हिस्सा	लाभार्थी अंशदान	कुल लागत
1.	कटाई, सिलाई	117700	7800	88275	37225	125500
2.	बैग बनाना	51000	23500	38250	36250	74500
	कुल	168700	31300	126525	73475	200000

अनुलग्नक

हम सब समूह सदस्य ने आईजीए गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सहमति दी है एचपी पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका में सुधार और वीएफडीएस के साथ समन्वय के लिए जेआईसीए परियोजना के दिशानिर्देश के अनुसार समूह (कटाई और सिलाई एवं बैग निर्माण) द्वारा चुना गया।

सदस्यों का विवरण इस प्रकार है

क्र स	नाम	पद	वर्ग	उम्र	हस्ताक्षर
1.	सरला देवी	प्रधान	सामान्य	37	
2.	मीना देवी	सचिव	SC	37	Meena
3.	शालु	कोषाध्यक्ष	SC	24	Shalu
4.	काली देवी	सदस्य	SC	25	Kali Devi
5.	शाकुनी देवी	५	SC	28	Shakuni
6.	पवित्री देवी	॥	SC	44	Pavitra Devi
7.	आरती	॥	सामान्य	29	Arati Devi
8.	शांता देवी	॥	॥	39	Shanta Devi
9.	सत्या देवी	५	॥	26	Satya Devi
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

हस्ताक्षर *July Maen*
प्रधान सचिव स्वयं सहायता समूह
नारदा शारदा स्वयं सहायता समूह
गांव बैहली, डा0 चौकी, तह0 निहरी
जिला मण्डी (हि0प्र0)

हस्ताक्षर *July Maen*
प्रधान सचिव स्वयं सहायता समूह
नारदा शारदा स्वयं सहायता समूह
गांव बैहली, डा0 चौकी, तह0 निहरी
जिला मण्डी (हि0प्र0)

हस्ताक्षर *Yew*
प्रधान सचिव वन ग्रामीण विकास
समिति Village Forest
Development Society

हस्ताक्षर *Yew*
प्रधान सचिव वन ग्रामीण विकास
समिति Village Forest
Development Society

Shashis

हस्ताक्षर
वन रक्षक

Shashis
हस्ताक्षर
वन खण्ड अधिकारी

हस्ताक्षर *Shashis*
वन परिक्षेत्र अधिकारी
Range Forest Officer
Jai Devi Forest Range
Jai Devi, Distt. Mandi (H.P.)

Shashis
डीएमयू द्वारा स्वीकृत
Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018